

RAS (Mains) 2012

FOR EVALUATOR'S USE ONLY

Sub. Code : **04**

Optional Paper

Botany : Paper - II

Time : 3 Hours / Maximum Marks : 200 / Total Pages : 32

Evaluation Table												(For Evaluator's Use Only)	
PART-A				PART-B				PART-C				Grand Total	
CN	E-1	E-2	AC	CN	E-1	E-2	AC	CN	E-1	E-2	AC	PART-A	
1				21				33				PART-B	
2				22				34				PART-C	
3				23				35				Total	
4				24				36				(-) Marks	
5				25				37				Final Total	
6				26				38				Marks in Words	
7				27				39					
8				28									
9				29									
10				30								Remarks of Evaluator/Other Evaluator	
11				31									
12				32									
13													
14													
15													
16													
17													
18												Remarks of Scrutiniser	
19													
20													
Total													
Evaluator's Sign													

Note :

नोट :

1 D
जी

2 V
वि

3 L
ए

१९७३। अगस्त।
प्रिय दोस्तों के लिए।

BLANK PAGE

04-II]

2

[Contd...



04-II]

Note : Attempt all the twenty questions. Each question carries 2 marks. Answer to each question should not exceed 15 words.

नोट : समस्त २० प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रत्येक प्रश्न के लिये २ अंक निर्धारित है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर १५ शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिये।

- 1 Define linkage of genes.
जीनों की सहलगता को परिभाषित करो।

- 2 Write the function of smooth endoplasmic reticulum.
चिकनी अंतःप्रदव्यी जालिका का क्या कार्य होता है ?

- 3 Define Nucleosome.
न्यूक्लियोसोम की परिभाषा दीजिए।

4 Define alleles.

युग्मविकल्पों की परिभाषा दीजिये।

7 Gi
आ

5 Write the photosynthetic adaptations present in the CAM plants.

सी.ए.एम. पौधों में पाये जाने वाले प्रकाश-संश्लेषणीय-अनुकूलन के विषय में लिखो।

8 W
हर्द

6 What do you mean by Epistasis ?

प्रबलता से आप क्या समझते हैं ?

9 I
रु

04-II]



- 7 Give the function of RNA polymerase and reverse transcriptase.
आर.एन.ए. पोलीमरेज तथा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के कार्य बताइये।

8 Why chloroplasts are considered as semi autonomous organelles ?
हरित लवकों को अर्ध स्वतंत्र सुक्षमांग क्यों समझा जाता है ?


9 Distinguish between an endangered and endemic species.
संकटापन्न व स्थानिक जाति के बीच का अंतर स्पष्ट करो।



- 10 Define Recombinant DNA.
पुनर्योजी DNA की परिभाषा दीजिये।

- 11 What is water potential ?
जल विभव क्या होता है ?

- 12 Which foreign genes are present in the golden rice ? Name any two.
सुनहरी चाँदल में कौन से विजातीय जीन होते हैं ? किन्हीं दो के नाम लिखो।



- 13 Name any 5 micronutrients needed by the plants for their growth and development.
किन्हीं पाँच लघु पोषक तत्वों के नाम लिखो जो पादप वृद्धि व विकास के लिए आवश्यक होते हैं।

- 14 How is plant growth influenced by the deficiency of zinc ?
जिंक की कमी से पादप वृद्धि किस प्रकार प्रभावित होती है ?

- 15 What is pleiotropy ?
स्लीओट्रोपी क्या है ?



16 What is the significance of cohesion force ?
संसंजन बल की क्या उपयोगिता या महत्व है ?

17 Write the names of Nitrogenous bases present in the nucleic acids.
नाइट्रोजन युक्त क्षारक जो नाभिकीय अम्लों में पाये जाते हैं, उनके नाम लिखो।

18 What is the difference between an autopolyploid and allopolyploid ?
एक स्वबहुगुणित तथा भिन्न बहुगुणित में क्या अंतर होता है ?



- 19 Give one example of simple fatty acids.
साधारण फैटी एसिड्स (वसा अम्लों) का एक उदाहरण दीजिये।

- 20 Write botanical names of two endangered plant species of Rajasthan.
राजस्थान के किन्हीं दो संकटग्रस्त पादपों के वानस्पतिक नाम लिखिये।



PART - B / भाग - ब

Marks/ अंक : 60

Note : Attempt all the twelve questions. Each question carries 5 marks. Answer should not exceed 50 words.

नोट : समस्त १२ प्रश्नों के उत्तर दीजिये। प्रत्येक प्रश्न के ५ अंक निर्धारित हैं। उत्तर ५० शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए।

- 21 Give differences between oxidative phosphorylation and photophosphorylation.
आक्सीकरणीय फास्फेटीकरण एवं प्रकाश फास्फेटीकरण में अंतर दीजिये।

- 22 What is Global warming ?
पृथ्वी उष्मायन क्या है ?

0
d
d
मे

23 Give five salient features of genetic code. - [HOTS]
आनुवंशिक कूट के पाँच महत्वपूर्ण लक्षण दीजिये।

24 Give differences between prokaryotic and eukaryotic cells.
प्रकारकोटि एवं एकारकोटि शर्करातीक फिरकानाम।

24 What are plasmids ? Give their functions.
प्लास्मिड्स क्या हैं ? इनके कार्य दीजिये।



25 Give five physiological responses of ethylene.
इथीलिन के पाँच कार्यिकीय कार्य दीजिये।

- 26 Describe how properties of water contribute to the upward movement of water in a tree ?
एक पेड़ में पानी के किन गुणों की वजह से ऊपर की तरफ पानी आसानी से पहुँच जाता है, बताएँ।

- 27 What conclusion did Stanley Miller draw when he found amino acids in the products of his experiment?
स्टेनली मिलर ने अपने प्रयोगों में अमीनो अम्ल देखे इससे उसने किस तरह का निष्कर्ष निकाला।

स्टेनली मिलर ने अपने प्रयोगों में अमीनों अम्ल देखे इससे उसने किस तरह का निष्कर्ष निकाला ।

- 28** Describe the molecular composition of nucleoli and explain their function.
केंद्रिका के आणविक रचना का वर्णन करते हुये इसके कार्य को भी समझाएँ।




- 29 "Transpiration is a necessary evil". Comment on the statement.
"वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक खोट है?" इस तथ्य की विवेचना करो।

- 30 What are the functions of secondary metabolites in plants ?
द्वितीयक उपापचयों का पादपों में क्या कार्य होता है ?



- 31 Define silent, mis-sense, point, frame shift and non-sense mutation types.
शान्त, अपार्थक, बिन्दु, फ्रेम-शिफ्ट व अनर्थक प्रकार के उत्परिवर्तनों की परिभाषा दीजिये।
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

- 32 Write a short note on Richmond-Lang effect.
रिचमण्ड-लैंग प्रभाव पर एक लघु टिप्पणी लिखिये।
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-



PART - C / भाग - स

Marks/ अंक : 100

Note : Attempt any 5 questions. Each question carries 20 marks. Answer should not exceed 200 words.
नोट : कोई भी ५ प्रश्न कीजिये। प्रत्येक प्रश्न के लिए २० अंक निर्धारित है। उत्तर २०० शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए।

33 -- Write notes on the followings :

निम्न पर टिप्पणियाँ लिखिये -

- (i) Transcription
प्रतिलिपिकरण
- (ii) Endemic taxa of Rajasthan.
राजस्थान के स्थानीय पौधे।

: 100

'xceed

खो से



34 Write notes on the followings :

निम्न पर टिप्पणियाँ लिखिये -

(i) Okazaki fragment

ओकाजाकी भाग

(ii) Terminalization.

टर्मिनलाइजेशन।

..... serial No.

SPR



35 Describe :

दर्शन कीजिये :

(i) Aneuploidy

असुप्पुणिता

(ii) Origin of life.

जीवन की उत्पत्ति।

Contd...

04-II]

21

[Contd...



- 36 What is Biosphere reserve ? What are the objectives of Biosphere Reserve Programme ?
Name any 5 Biosphere reserves in India.
संरक्षित जैवभूमण्डल क्या है ?
जैवभूमण्डल संरक्षण कार्यक्रम के क्या उद्देश्य है ? भारत के किन्हीं पाँच संरक्षित जैव भूमण्डल के नाम बताओ।

ime ?

नामः _____

04-II]

23

[Contd...



37 In today's context discuss the important role played by genetic engineering in Agriculture.
आज के परिपेक्ष्य में कृषि के क्षेत्र में अनुवांशिकी अभियांत्रिकी के महत्व पर विचार विमर्श करो।



37



- 38 "Plant vacuoles are multifunctional compartments" Elaborate the statement.
"पादप रेक्टिकाएँ एक तरह के बहुउद्देशीय उपखंड हैं" इस कथन का विस्तार करो।



- 39 In sweet peas, factor C or P alone produces white flowers, the purple colour is due to the presence of both these factors.

In the following cross, write the phenotype of the parents and workout the genotypic and phenotypic ratios in the progeny.

$$CcPp \times Cc Pp$$

मटर में घटक C अथवा P अकेले होने पर सफेद फूल बनाते हैं, यदि दोनों ही घटक साथ में होते हैं तो बैंगनी रंग के फूल बनते हैं।

निम्न संकरण में पैतृक लक्षण प्ररूप लिखो तथा सेतती की जीनी संरचना तथा लक्षण प्ररूप संरचना के अनुपात को बताओ।

$$CcPp \times Cc Pp$$





SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिए जगह



SPACE FOR ROUGH WORK/रफ कार्य के लिए जगह



SPACE FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिए जगह

